



नकली घी के कारखाने की सूचना पर सीज किया मकान

करौली. यहां कृषि उपज मण्डी के सामने स्थित कॉलोनी में एक मकान में नकली शुद्ध घी बनाने का कारखाना होने की सूचना पर रसद विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो घी बनाने वाले वहां से चंपत हो गए। इससे नकली घी का कारखाना होने की स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन मौके की स्थिति देखने के बाद विभागीय अधिकारियों का प्रथम दृष्टया नकली घी बनाया जाना माना जा रहा है। फिलहाल रसद विभाग की टीम ने मकान के कमरों को सील करते हुए नोटिस चस्पा किए हैं।

जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीना ने बताया कि मंगलवार को मैग्जीन क्षेत्र में नकली घी बनाने का कारखाना होने की सूचना मिली थी। इस पर विभागीय टीम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जगदीशप्रसाद गुप्ता और पुलिस जाप्ता को लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन जिस घर में घी बनाने की सूचना थी, वहां कोई नहीं मिला और कमरों में ताले लटके थे। टीम ने एक कमरे की खिड़कियों से झांकर देखा तो उसमें घी, तेल आदि के पीपे और कुछ उपकरण नजर आए। इस पर टीम ने प्रथम दृष्टया नकली घी बनाने की आशंका में उस कमरे सहित मुख्य दरवाजे और ऊपरी मंजिल के कक्षों को सील कर नोटिस चस्पा किए। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि कारखाने के मालिक को फोन भी किया, लेकिन वह आया नहीं। इस पर सीज करने की कार्रवाई की गई है, जिसकी रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रेषित की जाएगी।

किराए से ले रखा है मकान

डीएसओ के अनुसार टीम के पहुंचने से पहले ही ताला बंद करके भाग गए। मकान मालिक से भी बात की गई, जिस पर उन्होंने मकान को करौली निवासी एक जने को किराए पर देने की जानकारी दी। इस दौरान किसी ने टीम को अवगत कराया कि यहां से घी चिकित्सा विभाग को भी आपूर्ति होता है, इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से जानकारी की गई तो पता चला कि उनके यहां तो घी सवाईमाधोपुर से आपूर्ति होता है।

Source: <https://www.patrika.com/special-news/karauli-news-4-7606829/>